



ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम

प्रलम्ब के लिये:

[आयुष्मान भारत](#), [राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन](#), [मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता](#)

मेन्स के लिये:

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की संभावनाएँ, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य से संबंधित हालिया सरकारी पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उन चिकित्सकों के लिये एक लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर अपनी सेवाएँ देंगे।

- इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करना है जहाँ भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत (लगभग 65%) रहता है।
- इसी प्रकार की पहल छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों में भी लागू की गई है जहाँ गाँवों में सेवा देने के लिये ग्रामीण चिकित्सा सहायक (RMA) तैयार करने वाला तीन वर्षीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम:

परिचय:

- भारत में प्रस्तावित लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम चिकित्सकों के लिये तीन वर्ष का चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर अपनी सेवाएँ देंगे। यह पाठ्यक्रम नियमित MBBS पाठ्यक्रम से भिन्न है।
- लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम-स्तरीय देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित है, जबकि नियमित MBBS पाठ्यक्रम चिकित्सा विज्ञान और अभ्यास के सभी पहलुओं को शामिल करता है।
- लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जटिल एवं विविध परिस्थितियों से निपटने के लिये प्रशिक्षुओं को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं कर सकता है, जबकि नियमित MBBS पाठ्यक्रम चिकित्सकों को किसी भी तरह की स्थिति के लिये तैयार या प्रशिक्षित करता है।

लाभ:

- ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता में वृद्धि करना।
- स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं एवं आपात स्थितियों हेतु त्वरित प्रतिक्रिया देना।
- संसाधन की कमी वाले क्षेत्रों के लिये लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण समुदायों हेतु उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ।

कमियाँ:

- जटिल चिकित्सा क्षेत्रों में सीमित विशेषज्ञता।
- ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों के संबंध में अपर्याप्त जानकारी।
- चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षा मानकों के स्तर में संभावित कमी।

- इससे भेदभाव संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप शहरी आबादी के लिये अधिक योग्य चिकित्सक प्राप्त की तुलना में ग्रामीण आबादी हेतु कम योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नियुक्त किये जा सकते हैं।
- इससे डॉक्टरों की कमी में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार ग्रामीण भारत में डॉक्टरों की स्थिति:

- ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वशिषज्ज डॉक्टरों की काफी कमी है।
- आवश्यक वशिषज्ज डॉक्टरों की संख्या में लगभग 80% की कमी है।
- वशिषज्ज डॉक्टरों में सर्जन (83.2%), प्रसूत एवं स्त्री रोग वशिषज्ज (74.2%), चकित्सक (79.1%) और बाल रोग वशिषज्ज (81.6%) शामिल हैं।
- CHC में वशिषज्ज डॉक्टरों की संख्या वर्ष 2005 के 3,550 से 25% बढ़कर वर्ष 2022 में 4,485 हो गई है।
 - हालाँकि CHC में वृद्धि के परिणामस्वरूप वशिषज्ज डॉक्टरों की आवश्यकता बढ़ गई है जिससे असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- वशिषज्ज डॉक्टरों की कमी के अतिरिक्त PHC और उप-केंद्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं सहायक नर्सिंग दाइयों की भी संख्या कम है, इनमें से 14.4% पद खाली पड़े हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी की समस्या से संबंधित चुनौतियाँ:

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और संसाधन:
 - ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी यहाँ की सीमिति स्वास्थ्य सुविधाएँ और संसाधन से संबंधित है।
- वशिषिट देखभाल व्यवस्था तक सीमिति पहुँच:
 - ग्रामीण क्षेत्रों में वशिषज्जों की कमी के कारण जटिल चकित्सिकीय इलाज में देरी होती है अथवा पर्याप्त इलाज नहीं हो पाता है।
- ग्रामीण प्रथा से वशिषिता:
 - बेहतर कॅरियर की संभावनाओं, जीवनशैली जैसी प्राथमिकताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमिति व्यावसायिक विकास के अवसरों के कारण डॉक्टर प्रायः शहरी परविश को प्राथमिकता देते हैं।
- मेडिकल कॉलेजों का असमान वतिरण:
 - शहरी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों के संकेंदरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी देखी जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की नमिन प्रतधिरण दर:
 - पर्याप्त सहायता, सुविधाएँ और विकास की संभावनाएँ प्रदान करने में कठनाइयों के कारण दूर-दराज़ या ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को बनाए रखना कठिन है।
- सामाजिक आर्थिक कारक:
 - गरीबी, सीमिति शैक्षिक अवसर और अवकिसति बुनियादी ढाँचा ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कम उपलब्धता में योगदान करते हैं।
- शैक्षिक असमानताएँ:
 - गुणवत्तापूर्ण चकित्सिकी शिक्षा तक असमान पहुँच शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर को प्रोत्साहित करती है।

India still grapples with a shortage of medical staff

Category of medical staff

Per cent of vacancies

Doctors in rural primary health centres



Specialists in rural community health centres



Auxiliary nursing midwives at PHCs and sub-centres in rural areas



हेल्थकेयर से संबंधित हालिया सरकारी पहल:

- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- जननी शशि सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

आगे की राह

- टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ सेवाएँ:
 - ग्रामीण रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर को समाप्त करते हुए दूरस्थ परामर्श एवं चिकित्सा सेवाओं हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ।
- मध्य-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता:
 - डॉक्टरों की देख-रेख में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल सेवाएँ प्रदान करने हेतु चिकित्सा सहायकों और नर्स तथा चिकित्सकों हेतु प्रशिक्षण एवं तैनाती सुनिश्चित करना ।
- ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिक और आउटरीच कार्यक्रम:
 - चिकित्सा सेवाओं को सीधे ग्रामीण समुदायों तक पहुँचाने हेतु स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं और मोबाइल क्लिनिकों की स्थापना करना, साथ ही इस क्षेत्र में पहुँच एवं सुविधा में सुधार करने की आवश्यकता है ।
- ग्रामीण चिकित्सा शिक्षा और आवासीय कार्यक्रम:
 - मेडिकल छात्रों और नविसयों को ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रासंगिक प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करने के लिये विशेष कार्यक्रम शुरू करना ।
- वित्तीय प्रोत्साहन:
 - डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में अभ्यास हेतु आकर्षित करने और वित्तीय बोझ को कम करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन एवं ऋण

पुनर्भुगतान कार्यक्रम शुरू करना ।

■ अनुसंधान और डेटा-संचालित दृष्टिकोण:

- ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों पर नरितर अनुसंधान और डेटा संग्रह नीतिनिर्माण लक्षित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिये मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है ।

■ सामुदायिक सहभागिता और स्वास्थ्य जागरूकता:

- ग्रामीण समुदायों को नवारक देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के महत्त्व के बारे में शक्ति एवं सशक्त बनाने के लिये जागरूकता अभियान चलाना ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन के संदर्भ में प्रशक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता 'आशा' के कार्य नमिनलखिति में से कौन-से हैं? (2012)

1. स्त्रियों की प्रसव-पूर्व देखभाल जाँच के लिये उन्हें स्वास्थ्य सुवधि केंद्र तक साथ ले जाना
2. गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिये गर्भावस्था परीक्षण कटि प्रयोग करना
3. पोषण और प्रतरिक्षण के वषिय में सूचना देना
4. बच्चे का प्रसव कराना

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

??????:

उत्तर. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनविर्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है ।" वश्लेषण कीजिये । (2021)

[स्रोत: द हृदि](#)